

File No. A-11016/01/2018-CLS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, Dated 27.11.2018

To,

The Registrar General,
All High Courts

Sub: Filling up the post of Presiding Officer of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur and Asansol-regarding

Sir,

I am directed to say that it is proposed to fill up the posts of Presiding Officer of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court (CGIT-cum-LC) one each at Kanpur and Asansol in accordance with the provisions contained in Sections 7 & 7A of the Industrial Disputes Act, 1947 (relevant extract of the Act placed at **Annexure-I**). According to these provisions, the post of Presiding of CGIT-cum-LC is to be filled by a judicial officer-

- 1) who is, or has been, a Judge of a High Court; **or**
- 2) who has, for a period of not less than three years, been a District Judge or an Additional District Judge.

2. The term of office of the Presiding Officer shall be for a period of 5 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier. The other terms and conditions of appointment to the post of Presiding Officer will be as per as prescribed in "The Presiding Officers of the Labour Court, Industrial Tribunal and National Tribunal (Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Service) Rules, 2015"(**Annexure-II**).

2. The scales of pay attached to the post of Presiding Officer of CGIT-cum-LC are as follows:

- (i) Distt. Judge (Entry Level) - Rs. 51,550-1230-58,930-1380-63,070/-
- (ii) Distt. Judge (Selection Grade) - Rs.57,700-1230-58,930-1380-67,210-1540-70,290/-
- (iii) Distt. Judge (Super time Scale)- Rs. 70,290-1540-76,450/-


3. Earlier a vacancy circular for these two posts of Presiding Officer, one each at CGIT, Kanpur & CGIT, Asansol was issued on 29.5.2018 as per new Rules, namely-"Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of

Service of Members) Rules, 2017. However, in light of the Order of Hon'ble Supreme Court dated 09.02.2018 read with Order 20.3.2018 in W.P. No. 279 of 2017 and other connected petitions, the matter has been re-examined in consultation with M/o Law and Justice and it has been decided to cancel and withdraw the earlier vacancy circular dated 29.5.2018. Those candidates, who had earlier applied in response the vacancy circular dated 29.5.2018, need to apply afresh if they fulfill the eligibility conditions as provided in para 1 above.

4. It is requested that this Circular may be given wide publicity and names of judicial officers, who fulfill the eligibility conditions and are willing to be appointed as Presiding Officer of CGIT-cum-LC at Kanpur and Asansol, may please be furnished so as to reach this Ministry within a period of forty five (45) days from the date of issue of this circular. The Bio-Data of each officer may be furnished in the proforma placed at **Annexure-III, IV & V** to be filled by the concerned officer and to be attested by the concerned Registrar General.

5. It may be noted that the applications with complete proforma (Annexure-III, IV & V) received on or before the stipulated date will only be considered.

Yours faithfully,



(Ajay Malik)

Under Secretary to the Government of India

Copy to:

1. Ministry of Law and Justice, Department of Justice, Jaisalmer House, New Delhi with the request names of Judicial Officers who are eligible and willing to be appointed to the post of the Presiding Officer of the CGIT-cum-LC at Kanpur and Asansol may kindly be forwarded to this Ministry.
2. Director, NIC with the request to upload the circular on Ministry's website

specified in the Second Schedule and for performing such other functions as may be assigned to them under this Act.

(2) A Labour Court shall consist of one person only to be appointed by the appropriate Government.

(3) A person shall not be qualified for appointment as the presiding officer of a Labour Court, unless—

¹[(a) he is, or has been, a Judge of a High Court; or

(b) he has, for a period of not less than three years, been a District Judge or an Additional District Judge; or

²* * * * *

³[(d)] he has held any judicial office in India for not less than seven years; or

⁴[(e)] he has been the presiding officer of a Labour Court constituted under any Provincial Act or State Act for not less than five years.

⁴[(f)] he is or has been a Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or Joint Commissioner of the State Labour Department, having a degree in law and at least seven years' experience in the labour department including three years of experience as Conciliation Officer:

Provided that no such Deputy Chief Labour Commissioner or Joint Labour Commissioner shall be appointed unless he resigns from the service of the Central Government or State Government, as the case may be, before being appointed as the presiding officer; or

(g) he is an officer of Indian Legal Service in Grade III with three years' experience in the grade.]

7A. Tribunals.—(1) The appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, constitute one or more Industrial Tribunals for the adjudication of industrial disputes relating to any matter, whether specified in the Second Schedule or the Third Schedule ⁵[and for performing such other functions as may be assigned to them under this Act].

⁶[(1A) The Industrial Tribunal constituted by the Central Government under sub-section (1) shall also exercise, on and from the commencement of Part XIV of Chapter VI of the Finance Act, 2017 (7 of 2017), the jurisdiction, powers and authority conferred on the Tribunal referred to in section 7D of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952).]

(2) A Tribunal shall consist of one person only to be appointed by the appropriate Government.

(3) A person shall not be qualified for appointment as the presiding officer of a Tribunal unless—

(a) he is, or has been, a Judge of a High Court; or

⁷[(aa) he has, for a period of not less than three years, been a District Judge or an Additional District Judge; ⁸***]

⁹[(b) he is or has been a Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or Joint Commissioner of the State Labour Department, having a degree in law and at least seven years' experience in the labour department including three years of experience as Conciliation Officer:

Provided that no such Deputy Chief Labour Commissioner or Joint Labour Commissioner shall be appointed unless he resigns from the service of the Central Government or State Government, as the case may be, before being appointed as the presiding officer; or

(c) he is an officer of Indian Legal Service in Grade III with three years' experience in the grade.]

1. Ins. by Act 36 of 1964, s. 3 (w.e.f. 19-12-1964).

2. Clause (c) omitted by Act 46 of 1982, s. 3 (w.e.f. 21-8-1984).

3. Clauses (a) and (b) re-lettered as (d) and (e) respectively by Act 36 of 1964, s. 3 (w.e.f. 19-12-1964).

4. Ins. by Act 24 of 2010, s. 4 (w.e.f. 15-9-2010).

5. Ins. by Act 46 of 1982, s. 4 (w.e.f. 21-8-1984).

6. Ins. by Act 7 of 2017, s. 158 (w.e.f. 26-5-2017).

7. Ins. by Act 36 of 1964, s. 4 (w.e.f. 19-12-1964).

8. The word "or" omitted by Act 46 of 1982, s. 4 (w.e.f. 21-8-1984).

9. Ins. by Act 24 of 2010, s. 5 (w.e.f. 15-9-2010).



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3 Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 275]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2015/वैशाख 10, 1937

No. 275]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2015/VAISAKHA 10, 1937

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 336(अ).—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण (वेतन, भत्ते और अन्य सेवा के निबन्धन और शर्तें) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन के तारीख के प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.—(1) इन नियमों में जब तक कि सदर्थ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) “अधिनियम” से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) अभिप्रेत है;

(ख) “पीठासीन अधिकारी” से अधिनियम की धारा 7, धारा 7क या धारा 7ख के अधीन पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं तथा परिभाषित नहीं हैं परंतु अधिनियम में परिभाषित हैं उनके वही अर्थ हैं जो उक्त अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. कार्यकाल.—किसी सेवार्त न्यायधीश की पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की दशा में, प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष की होगी और सेवानिवृत्त न्यायधीश की दशा में नियुक्ति पैंसठ वर्ष की आयु तक के लिए होगी।

4. वेतन.—(1) राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी का वेतन 80,000 रु. (नियत) प्रतिमाह की नियत दर से होगा और जिसके अंतर्गत सेवारत न्यायधीशों की दशा में प्रतिनियुक्ति भत्ता और सेवानिवृत्त न्यायधीशों की दशा में सकल पेंशन भी है।

(2) श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी का वेतन निम्न होगा :—

(i) जिला न्यायधीश (प्रविष्टि स्तर) - 51,550-1230-58,930-1380-63,070 रु.

(ii) जिला न्यायाधीश (चयन श्रेणी) - 57,700-1230-58,930-1380-67,210 रु.

(iii) जिला न्यायधीश (अतिकाल वेतन) - 70,290-1540-76,450 रु.

प्रति माह के वेतन में सकल पेंशन, पेंशन समतुल्य या अन्य सेवानिवृत्ति के फायदे भी हैं, यदि कोई हो :

परंतु यह कि पीठासीन अधिकारी के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में, जो न्यायिक सेवा या उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या राज्य सरकार के संयुक्त आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त है और जिसने पेंशन की रीति द्वारा किसी सेवानिवृत्ति के फायदे को प्राप्त किया है या प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने के लिए हकदार हो गया है, पीठासीन अधिकारी के लिए ऐसे नियत वेतन से सकल पेंशन के बराबर की रकम कम कर दिया जाएगा।

5. मंहगाई भत्ता.—राष्ट्रीय अधिकरण को पीठासीन अधिकारी मंहगाई भत्ता उस दर से प्राप्त करेंगे जो उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायधीशों को देय है।

(2) श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों को वह समतुल्य मंहगाई भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आहरित किया जा रहा है जो पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान आहरित उपलब्धियों में राहत पेंशन के कम कर दिए जाने के शर्त के अध्वधीन होगी।

6. नगर प्रतिपूरक भत्ता.—(1) राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों को वह नगर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को देय है।

(2) श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण, के पीठासीन अधिकारियों के नगर प्रतिपूरक भत्ते केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारियों को यथा लागू नियमों के अधीन विनियमित होंगे।

7. चिकित्सा रियायत.—राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं उनके तैनाती के स्थान पर उपलब्ध रहेंगी और जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना प्रचालन में नहीं है, वहां पर वे केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 में यथा उपबंधित सुविधाएं लेने के लिए हकदार होंगे।

(2) श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए, चिकित्सा सुविधाएं केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारियों को यथा लागू नियमों के अधीन विनियमित होंगी।

8. छुट्टी.—राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए, छुट्टी से संबंधित मामले उच्च न्यायालयों से सेवारत न्यायधीश को यथा ग्राह्य होंगे।

(2) श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए, छुट्टी से संबंधित मामले केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' अधिकारियों को यथा लागू नियमों के अधीन विनियमित होंगे।

9. मकान किराया भत्ता.—(1) राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए किराया भत्ता सुसज्जित वास-सुविधा या यथास्थिति मूल वेतन का तीस प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता का प्रबंध किया जाएगा।

(2) श्रम न्यायालय और औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार के समूह 'क' कर्मचारियों के लिए यथा अनुज्ञेय मकान किराया भत्ता का प्रबंध किया जाएगा।

10. **यात्रा भत्ता.**—पीठासीन अधिकारियों को उनके पुनर्नियोजन के समय पर लागू दरों पर अपने हकदारी के अनुसार यात्रा भत्ता के हकदार होंगे।
11. **छुट्टी यात्रा रियायत.**—(1) राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार के उच्चतम श्रेणी के लिए यथा अनुज्ञेय स्वयं और कुटुम्ब के लिए छुट्टी यात्रा रियायत होगी।
(2) श्रम न्यायालय और औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत पीठासीन अधिकारियों की पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्ति के बाबत पुनर्नियोजित व्यक्ति को यथा लागू नियमों के अधीन विनियमित होगा।
12. **वाहन भत्ता.**—(1) राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विनिश्चित की गई नियत रकम के रूप में वाहन भत्ता का प्रबंध किया जाएगा।
(2) श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों को यह विकल्प रहेगा कि या वे शासकीय कार्यों के प्रयोजन के लिए स्टाफ कार रखें या अपने वाहन का प्रयोग प्रतिमाह प्रदान किए गए पचहत्तर लिटर पेट्रोल द्वारा करें।
13. **स्थानांतरण यात्रा भत्ता.**—(1) उच्चतम श्रेणी के सरकारी सेवकों के लिए अनुज्ञेय स्थानांतरण भत्ता राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण या श्रम न्यायालय का कार्यग्रहण करने के लिए गृहनगर से मुख्यालय तक और समनुदेशन के समाप्त होने पर मुख्यालय के गृह नगर तक का स्थातांतरण यात्रा भत्ता होगा।
(2) श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्ति के बाबत पुनर्नियोजित व्यक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के यथा लागू नियमों के अनुसार होगा।
14. **अभिदायी भविष्य-निधि स्कीम.**—पीठासीन अधिकारियों को अभिदायी भविष्य-निधि स्कीम से नियमों के अनुसार पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान जुड़ने का हक होगा।
15. **अन्य सेवा शर्तें.**—उन मामलों की बाबत जिनके बारे में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं बनाए गए हैं अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की सेवा के निबधनों और शर्तों से संबंधित मामलों को केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय के लिए श्रम न्यायालय, औद्योगिक अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा निर्देशित किए जाएंगे, और केन्द्रीय सरकार का उस पर विनिश्चय बाध्यकारी होगा।
16. **शिथिल करने की शक्ति.**—केन्द्रीय सरकार को इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल करने की शक्ति होगी।

[सं. जेड-25025/05/2013-सीएलएस-2]

धीरज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2015

G.S.R. 336(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section(1) of Section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Presiding Officers of the Labour Court, Industrial Tribunal and National Tribunal (Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Service) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947);

(b) "Presiding Officer" means a person appointed as presiding officer under Sections 7, 7A or Section 7B of the Act.

(2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Duration.**—In case of appointment on deputation of serving judges as presiding officer, the normal period of appointment shall be for a period of three years and in case of retired judges, the appointment shall be till the age of 65 years.

4. **Salary.**—(1) The Pay of the Presiding Officer of National Tribunal shall be fixed @ Rs 80,000/- (fixed) per month and this shall include the deputation allowance in case of serving judges and gross pension in case of retired judges.

(2) The Salary of the Presiding Officer of the Labour Court or Industrial Tribunal shall be—

(i) the District Judge (Entry Level) – Rs. 51,550-1230-58,930-1380-63,070

(ii) the District Judge (Selection Grade) – Rs. 57,700-1230-58,930-1380-67,210

(iii) the District Judge (Super time Scale) – Rs. 70,290-1540-76,450

per month inclusive of gross pension, pension equivalent or other retirement benefits, if any:

Provided that in the case of an appointment of a person as a presiding officer, who has retired from Judicial Service or as Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or Joint Commissioner of the State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefit by way of pension, the pay of presiding officer shall be reduced by the gross amount of Pension from the Pay so fixed.

5. **Dearness Allowance.**—(1) The presiding officers of National Tribunal shall receive the dearness allowance at the rate as admissible to the serving judges of the High Court.

(2) The presiding officers of the Labour Court or Industrial Tribunal shall be entitled to dearness allowance as applicable to Group- "A" Officers of the Central Government drawing an equivalent pay from time to time subject to the condition that relief of pension is deducted from the emolument drawn during the period of re-employment.

6 **City Compensatory Allowance.**—(1) For presiding officers of National Tribunals, the city compensatory allowance shall be as admissible to the serving judges of High Courts.

(2) For presiding officers of Labour Court or Industrial Tribunal, the city compensatory allowance shall be regulated under the rules as applicable to the Group- "A" Officers of the Central Government.

7. **Medical Concession.**—(1) For presiding officers of the National Tribunal, the Central Government Health Scheme facilities shall be available at the station of posting and where the Central Government Health Scheme is not in operation, they shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.

(2) For presiding officers of the Labour Court or Industrial Tribunal, the medical facilities shall be regulated under the rules as applicable to the Group- "A" Officers of the Central Government.

8. **Leave.**—(1) For presiding officers of the National Tribunal, the matters relating to leave shall be as admissible to the serving judges of the High Courts.

(2) For presiding officers of the Labour Court or Industrial Tribunal, the matters relating to leave shall be regulated under the rules as applicable to the Group- "A" Officers of the Central Government.

9. **House Rent Allowance.**—(1) For the presiding officers of the National Tribunal, there shall be provided rent free furnished accommodation or, as the case may be, the house rent allowance at the rate of thirty per cent of the basic pay.

(2) For the presiding officers of the Labour Court or Industrial Tribunal, there shall be provided the House Rent Allowance as admissible to the Group- "A" Officers of the Central Government.

10. **Travelling Allowances.**—The presiding officers shall be entitled the travelling allowance as per their entitlement on the rates at the time of their re-employment.

11. Leave Travel Concession.—(1) For the presiding officers of the National Tribunal, the leave travel concession for self and family shall be as admissible to the highest grade in the Central Government.

- (2) For the presiding officers of the Labour Court or Industrial Tribunal, the Leave Travel Concession shall be regulated under the rules as applicable to re-employed person in respect of Presiding Officers appointed on re-employed basis.

12. Conveyance Allowance.—(1) For the presiding officers of the National Tribunal, there shall be provided the conveyance allowance in the form of a fixed amount to be decided by the Central Government from time to time.

- (2) The presiding officers of the Labour Court or Industrial Tribunal may have an option either to have a staff car for official purposes or use of own vehicle with a grant of seventy five litres of petrol per month.

13. Transfer Travelling Allowance.—(1) The transfer travelling allowance shall be as admissible to a Government Servant of the highest grade from home town to headquarters for joining the National Industrial Tribunal or Labour Court and from headquarters to home town at the end of the assignment.

- (2) For the presiding officers of the Labour Court or Industrial Tribunal, the transfer travelling allowance shall be as per Central Government rules as applicable to re-employed person in respect of presiding officers appointed on re-employed basis.

14. Contributory Provident Fund Scheme.—The presiding officers shall be entitled to join Contributory Provident Fund Scheme as per rules during the period of re-employment.

15. Other Conditions of Service.—Matters relating to the terms and conditions of service of the Chairperson or other Members with respect to which no express provisions has been made in these rules, shall be referred by the Labour Court, Industrial Tribunal or National Tribunal to the Central Government for its decision, and the decision of the Central Government thereon shall be binding.

16. Power to relax.—The Central Government have power to relax the provision of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

[No. Z-25025/05/2013-CLS-II]

DHEERAJ KUMAR, Jt. Secy.

Annexure-III

CHECK-LIST OF DOCUMENTS TO BE SENT WITH THE APPLICATION

Name of the Officer: _____

Sl. No.	Document	Status of enclosure of document Y – Yes N – No NA – Not Applicable
1	Copies of Annual Confidential Reports/Performance Appraisal Reports of the officer during the last five years	
2	Vigilance clearance (if applicable) of the officer	
3	Integrity certificate of the officer	
4	Annexure-IV (Proforma for Bio-Data of the Officer)	
5	Annexure-V (Proforma for ACR/APAR Grading for the last five years of the Officer)	

(Sign and Seal of the Registrar General)

Annexure-IV

Proforma for Bio-data

(to be filled by the judicial officer concerned)

1.	Name (in Full)	
2.	Date of Birth	
3.	Educational Qualification	
4.	Particulars of Service in brief with dates of each appointment held from the level of Additional District Judge or equivalent post <i>(In Chronological Order)</i> (Note: Experience with regard to Labour matters may be specifically mentioned)	
5.	Details in respect of last/current post held	
	Name of the last/current post	
	Date of appointment to last/current post	
	Date of retirement	
	Scale of pay	
	Last pay drawn	
6.	Address for communication	
7.	Phone no.	
	(Office)	
	(Residential)	
	(Mobile)	
8.	E-mail address	
9.	Preference for appointment(Kanpur/Asansol)	(i).....(ii).....

Date:

Signature:

Place:

Name:

Annexure-V

Proforma for abstract of ACR Gradings for the last five years of each judicial officer to be considered for the post of Presiding Officer, Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Asansol and Kanpur.

Name of the Officer: _____

Sl. No.	Year/Period	Details of Reporting Authority & Grading	Details of Reviewing Authority & Grading	Details of Accepting Authority & Grading
1				
2				
3				
4				
5				

(Sign and Seal of the
Registrar General)